

व्यापार लेखा तैयार कीजिये :

AQ-110

	रु.	
खरीद	90,000	
प्रारंभिक स्कंध	50,000	
बिक्री	1,80,000	
मजदूरी	9,000	
आगत वाहन व्यय	6,000	
संवरण स्कंध	14,000	10

B.A. (Part-III) Examination
FOOD TECHNOLOGY (Optional Subject)

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 50

Note :—(1) **ALL** questions are compulsory.

(2) All questions carry equal marks.

(3) Draw diagram wherever necessary.

1. Explain :

- (a) Need of Food Regulation
- (b) Agmark
- (c) Definition of Food Adulteration
- (d) F.P.O.

OR

- (e) Effect of Food Adulteration
- (f) HACCP
- (g) Types of Food Adulterants
- (h) B.I.S.

2½×4

2. Give definition of sanitation and give importance of sanitation in bakery industry.

OR

Give principles of sanitation and explain water purification procedures. 10

3. Explain :

- (a) Need of packing
- (b) Package function
- (c) Bottling
- (d) Metal foil

OR

- (e) Material required for packing
- (f) Hazards of packing
- (g) Packing of bread
- (h) Plastic packing 2½×4

- (4) अंतिम लेखे मुख्यतः तैयार किया जाता है :

- (अ) त्रैमासिक
- (ब) अर्द्धवार्षिक
- (क) वार्षिक
- (ड) इनमें से कोई नहीं

- (5) लेखा कीमत निर्धारण के लिए उपयोगी है :

- (अ) परिव्यय
- (ब) वित्तीय
- (क) अंकेक्षण
- (ड) इनमें से कोई नहीं। 2×5

5. उत्पादन लेखा तैयार कीजिये :-

	रु.
1. प्रारंभिक स्कंध	40,000
2. खरीद	1,20,000
3. उत्पादन अधिव्यय	1,00,000
4. मजदूरी	80,000
5. वाहन व्यय	9,000
6. अधिकार शुल्क	9,000
7. चुंगी	5000
8. बिक्री	5,00,000
9. संवरण स्कंध	70,000

अथवा

4. योग्य पर्याय लिखिये :—

(1) सामग्री परिव्यय विचरण बराबर :

- (अ) वास्तविक मात्रा (प्रमाण कीमत – वास्तविक कीमत)
- (ब) प्रमाण कीमत (प्रमाण मात्रा – वास्तविक मात्रा)
- (क) प्रमाण कीमत × प्रमाण मात्रा – वास्तविक कीमत × वास्तविक मात्रा
- (ड) इनमें से कोई नहीं

(2) जो वास्तविक परिव्यय, प्रमाण परिव्यय से ज्यादा होता है, उसे विचरण कहते हैं :

- (अ) प्रतिकूल
- (ब) अनुकूल
- (क) नियंत्रित
- (ड) अनियंत्रित

(3) व्यापार लेखा दर्शाता है :

- (अ) संपूर्ण नफा
- (ब) शुद्ध नफा
- (क) संपूर्ण संपत्ति
- (ड) शुद्ध संपत्ति।

4. Write the correct alternatives :

(1) Material cost variance :

- (a) Actual quantity (Standard price – Actual price)
- (b) Standard price (Standard quantity – Actual quantity)
- (c) Standard price × Standard quantity – Actual price × Actual quantity
- (d) None of these

(2) If actual cost is more than standard cost when it called variance :

- (a) Adverse (b) Favorable
- (c) Controlled (d) Uncontrolled

(3) Trading accounts shows :

- (a) Gross profit (b) Net profit
- (c) Gross asset (d) Net asset

(4) Final account mainly prepared for :

- (a) Quarterly (b) Half yearly
- (c) Annually (d) None of these

(5) Account useful for Price determination :

- (a) Cost (b) Financial
- (c) Auditing (d) None of these 2×5

5. Prepare Manufacturing Account :

	Rs.
1. Opening stock	40,000
2. Purchases	1,20,000
3. Manufacturing overhead	1,00,000
4. Wages	80,000
5. Carriage inward	9,000
6. Royalty	9,000
7. Octroi	5,000
8. Sales	5,00,000
9. Closing Stock	70,000

OR

Prepare Trading Account :

	Rs.	
Purchases	90,000	
Opening stock	50,000	
Sales	1,80,000	
Wages	9,000	
Carriage inward	6,000	
Closing Stock	14,000	10

(इ) अन्न मिलावट के परिणाम

(फ) एच. ए. सी. सी. पी.

(ग) अन्न मिलावट के प्रकार

(ह) बी. आय. एस. 2½×4

2. सेनिटेशन की परिभाषा बताकर बेकरी व्यवसाय में सेनिटेशन का महत्व बताइये।

अथवा

सेनिटेशन के तत्व बतायें और पानी शुद्धिकरण प्रक्रिया स्पष्ट कीजिये। 10

3. स्पष्ट कीजिये :—

(अ) पैकिंग की आवश्यकता

(ब) पैकिंग का कार्य

(क) बॉटल भरना

(ड) मेटल फॉईल

अथवा

(इ) पैकिंग के लिये आवश्यक साधन सामग्री

(फ) पैकिंग के घोके

(ग) ब्रेड की पैकिंग

(ह) प्लास्टिक पैकिंग 2½×4

व्यापार लेखा तयार करा :

	रु.
खरेदी	90,000
प्रारंभन स्कंध	50,000
बिक्री	1,80,000
मजुरी	9,000
आगात वाहन व्यय	6,000
संवरण स्कंध	14,000

10

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :—(1) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(3) जहाँ आवश्यक हो, आकृतियाँ निकालिए।

1. स्पष्ट कीजिये :—

(अ) अन्न विषयक कानून की आवश्यकता

(ब) एगमार्क

(क) अन्न मिलावट की परिभाषा

(ड) एफ. पी. ओ.

अथवा

(मराठी माध्यम)

सूचना :—(1) सर्व प्रश्नां अनिवार्य आहेत.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

(3) आवश्यक तेथे आकृत्या काढा.

1. स्पष्ट करा :—

(अ) अन्न विषयक कायद्यांची गरज.

(ब) एगमार्क.

(क) अन्न भेसळीची परिभाषा.

(ड) एफ. पी. ओ.

किंवा

(इ) अन्न भेसळीचे परिणाम.

(फ) एच. ए. सी. सी. पी.

(ग) अन्न भेसळीचे प्रकार.

(ह) बी. आय. एस.

2½×4

2. सॅनीटेशनची व्याख्या सांगून बेकरी उद्योगातील सॅनीटेशनचे महत्त्व सांगा.

किंवा

सॅनीटेशनचे तत्व सांगून पाणी शुद्धीकरण प्रक्रिया स्पष्ट करा.

10

3. स्पष्ट करा :—

- (अ) वेष्टनाची गरज.
- (ब) वेष्टनाचे कार्य.
- (क) बाटलीत भरणे.
- (ड) मेटल फॉईल.

किंवा

- (इ) वेष्टनाकरिता आवश्यक साधन सामग्री.
- (फ) वेष्टनातील धोके.
- (ग) ब्रेडचे वेष्टन.
- (ह) प्लास्टीक पॅकींग.

2½×4

4. योग्य पर्याय लिहा :—

(1) सामग्री परिव्यय विचरण बरोबर :

- (अ) वास्तविक मात्रा (प्रमाण किंमत - वास्तविक किंमत)
- (ब) प्रमाण किंमत (प्रमाण मात्रा - वास्तविक मात्रा)
- (क) प्रमाण किंमत × प्रमाणमात्रा - वास्तविक किंमत × वास्तविक मात्रा
- (ड) यापैकी नाही

(2) जेव्हा वास्तविक परीव्यय, प्रमाण परीव्यया पेक्षा जास्त असतो तेव्हा त्याला विचरण म्हणतात :

- (अ) प्रतिकूल
- (ब) अनुकूल
- (क) नियंत्रित
- (ड) अनियंत्रित

(3) व्यापार लेखा दर्शवतो :

- (अ) सकल नफा
- (ब) शुद्ध नफा
- (क) सकल संपत्ती
- (ड) शुद्ध संपत्ती

(4) अंतीम लेखे मुख्यतः तयार केले जातात :

- (अ) त्रैमासिक
- (ब) अर्धवार्षिक
- (क) वार्षिक
- (ड) यापैकी नाही

(5) लेखे किंमत निर्धारणासाठी उपयोगी ठरतात :

- (अ) परीव्यय
- (ब) वित्तीय
- (क) अंकेक्षण
- (ड) यापैकी नाही

2×5

5. उत्पादन लेखा तयार करा :-

	रु.
1. प्रारंभन स्कंध	40,000
2. खरेदी	1,20,000
3. उत्पादन अधिव्यय	1,00,000
4. मजुरी	80,000
5. वाहन व्यय	9,000
6. अधिकार शुल्क	9,000
7. जकात	5,000
8. विक्री	5,00,000
9. संवरण स्कंध	70,000

किंवा